



# श्री पुष्टिकर श्री पुरोहित सूरजराज रूपादेवी स्मृति

## महिला महाविद्यालय

( जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से सम्बद्ध )

सिवाञ्जी गेट, जोधपुर

Mail ID: spspsrsmmv@gmail.com

क्रमांक : श्रीपुश्रीपुसूरुस्मृ/म.महा.वि./2021

दिनांक : 28.07.2021

## श्रीपुरोहित मगनराज जी स्मृति में वेबिनार

### छात्राएं कोविड समय में आपदा को बनाये अवसर - मुकेश बंसल

श्री पुष्टिकर श्रीपुरोहित सूरजराज रूपा देवी स्मृति महिला महाविद्यालय में महिला सशक्तिकरण को दिशा देने वाली श्री पुरोहित मगनराज जी की स्मृति में संयोजक डॉ. राजेश बोहरा के नेतृत्व में “कोविड फ़िटनेस, फ़ाइनेंशियल लिटरेसी एंड प्लेसमेंट ओप्योर्चुनिटीज़ फ़ॉर वुमेन” विषयक एक दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉ. बी. के. जोशी (प्रशासक, महाविद्यालय) के उपस्थिति में श्री पुरोहित मगनराज जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

वेबिनार के अध्यक्ष प्रो. प्रवीण चन्द्र त्रिवेदी, माननीय कुलपति, जे एन वी यु ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कॉलेज की इस पहल को क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि “यह वेबिनार महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। कोविड में बचाव ही उपचार है। नए बदलते परिवेश में कैरियर के नए आयाम अब विधार्थियों को अपनाने ही होंगे।”

श्री पुष्टिकर एज्यूकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री आनंद पुरोहित ने कहा कि “संस्थान का सारा प्रयास छात्राओं को एक अच्छे करियर की ओर ले जाना है। स्किल और प्रतिभा की धनी जोधपुर की ये छात्राएं सभी क्षेत्रों में अपना परचम फैलाएंगी। हम धनी तब नहीं बनते जब हम अधिक कमाते हैं, हम धनी तब बनते हैं जब हम अधिक बचत करके उसका सही ढंग से निवेश करते हैं। कोविड-19 के समय में जब सभी आर्थिक संकट से सभी जूझ रहे हैं, वित्तीय साक्षरता और अधिक अनिवार्य हो गई है।”

वेबिनार के मुख्य वक्ता, वित्तीय सलाहकार एवं [www.smartnivesh.com](http://www.smartnivesh.com) के संस्थापक वरिष्ठ कंपनी सचिव श्री मुकेश बंसल ने युवाओं की मानसिक, फिजिकल और वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करने हेतु व्याख्यान दिया और ऑनलाइन वेबिनार द्वारा आपदा काल में मानसिक, भौतिक और वित्तीय स्वावलंबन के गुर सिखाये और विधार्थियों को सलाह दी कि “कोविड की लहर में युवाओं को न सिर्फ अपने आप को वरन पूरे समाज और देश को बचाना है तो टेस्ट, ट्रेस, ट्रीटमेंट और टीका उपाय है।” श्री बंसल ने युवाओं से आपदा को अवसर बनाने और अपनाएं 50:30:20 का फार्मूला यानि आय का 50 प्रतिशत घर खर्च, 30 प्रतिशत अन्य व मनोरंजन पर एवं 20 प्रतिशत बचत और निवेश में लगायें। योग और नियमित पढाई के काम को न छोड़ें। बचत का ध्यान रखें। अपनी पहली कमाई से ही वित् नियोजन सीख कर निवेश करें।” वित्, बैंकिंग और स्किल आधारित करियर अवसरों का जिक्र करते हुए श्री बंसल ने कहा “ हर क्षेत्र में इनोवेशन हो रहा है. स्व कौशल आधारित या शिक्षा आधारित, दोनों में अवसर है. बैंकिंग, फाइनेंसियल सर्विसेज, इन्शुरन्स, सभी क्षेत्र खुले हैं महिलाओं के लिए. अब जरूरी है की हम आउट ऑफ़ बॉक्स थिंकिंग करें और नए इनोवेशन को अपनाएं।”

संस्थान के सहसचिव श्री रमेश कुमार पुरोहित अपने पिताश्री श्री पुरोहित मगनराज का सुमिरन करते हुए भावुक हो गए और कहा कि “पिताश्री ने महिला शिक्षा के उत्थान के लिए जो स्वप्न देखा था, वह आज साकार रूप ले रहा है। विज्ञान वर्ग व कला वर्ग में महाविद्यालय की छात्राओं ने विश्वविद्यालय स्तर पर वरीयता सूची में प्रथम स्थान व स्वर्ण पदक प्राप्त कर पिताश्री को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं छात्राओं के उज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।” संस्थान सचिव श्री ओमप्रकाश लोहरा ने आयोजकों द्वारा किए गए प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि “इस प्रकार की वेबिनार छात्राओं के शैक्षणिक उन्नयन में सहायक सिद्ध होगी।”

प्राचार्य डॉ. मीता मुल्लानी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा “स्व. श्री पुरोहित मगनराज जी द्वारा स्थापित इस महाविद्यालय में आयोजित वेबिनार से संस्थान की प्रतिभाशाली छात्राओं को एक नई दिशा मिली है। महिलाएँ अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी हैं।” छात्राओं और उनके अभिभावकों, महाविद्यालय के शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों ने महाविद्यालय और घर से वेबिनार में उपस्थित होकर कैरियर के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की।”

  
(डॉ. तेजेन्द्र वल्लभ व्यास)

मीडिया प्रभारी

  
(डॉ. मीता मुल्लानी)

प्राचार्य

